



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1977/माघ 1, 1898

No. 26]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1977/MAGHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 21st January 1977*

**S.O. 35(E).**—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely—

1. **Short title.**—These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 1977.

2. **Amendment of rule 12.**—For rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, the following rule shall be substituted, namely:—

“12. **Period for lodging claims and objections.**—Every claim for the inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of thirty days from the date of publication of the roll in draft under rule 10, or such shorter period of not less than fifteen days as may be fixed by the Election Commission in this behalf:

Provided that the Election Commission may, by notification in the Official Gazette, extend the period in respect of the constituency as a whole or in respect of any part thereof”

[No. F. 7(8)/69-Leg II]

E. VENKATESWARAN, Jt Secy.

## विधि, न्याय और कम्पनी कार्य सत्रालय

## (विधायी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

का० प्रा० 35(प्र).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का नाम रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1977 है ।
2. नियम 12 का संशोधन 1.—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“12 वाये और आक्षेप दाखिल करने के लिए कालावधि.—नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए हर वावा और उसमें की किसी प्रविष्टि पर हर आक्षेप नामावली के प्ररूप के नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अन्तर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया जाएगा :

परन्तु निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस कालावधि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है ।’ ।

[सं० का० 7(8)/69/विधायी II]

ई० वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव ।

महो प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESSES, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977